



हवाई मार्ग से ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान कर रहे हैं

आप हवाई मार्ग से ऑस्ट्रेलिया छोड़ने की तैयारी करने के दौरान, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

कदम 1 - अपनी यात्रा की योजना बनाएँ

पहले से योजना बनाएँ

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करने वाले यात्रियों को कोविड-19 का पूर्ण टीकाकरण लगवाने और टीकाकरण की स्थिति का प्रमाण पेश करने वाले दस्तावेज के साथ यात्रा करने की सलाह देती है।

आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि यदि आपकी यात्रा में देरी और व्यवधान होता है, तो आप क्या करेंगे/करेंगी।

आप जिन भी देशों से पारगमन और जिन देशों की यात्रा करने वाले हों, उन सभी की मौजूदा यात्रा, वीजा और COVID-19 सलाह जांचें। प्रत्येक देश के लिए प्रवेश करने की आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं, जिनमें COVID-19 टीकाकरण और जांच आवश्यकताएं भी शामिल हैं।

आपके लिए एयरलाइंस की कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना भी ज़रूरी हो सकता है।

यदि आवश्यक हो, तो जांचें कि आपको [ऑस्ट्रेलिया में फिर से प्रवेश करने](#) के लिए क्या करना होगा।

कदम 2 - अपने यात्रा विकल्पों की जाँच करें

पूरे ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख हवाई अड्डों से कमर्शियल उड़ानें उपलब्ध हैं।

कदम 3 - अपनी यात्रा बुक करें

कदम 4 - यात्रा की तैयारी करें

जब आप अपनी उड़ान के लिए चेक-इन करते/करती हैं, तो एयरलाइन कर्मी आपको ये दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे:

- पासपोर्ट
- बोर्डिंग पास

आपसे यह सबूत भी मांगा जा सकता है कि आप अंतरराष्ट्रीय यात्रा उद्देश्यों के लिए ऑस्ट्रेलिया की पूर्ण टीकाकरण की परिभाषा को पूरा करते हैं।

कदम 5 - जब आप विदेश में हों

अपडेट रहें

अगर आप वापस ऑस्ट्रेलिया आना चाहें, तो आपको [ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश](#) करने के नियमों को नियमित रूप से जांचते रहना चाहिए। ये नियम आपकी यात्रा के दौरान बदल सकते हैं।